

WELLAND GOULDSMITH SCHOOL

CLASS: 8

SUBJECT: 2nd LANGUAGE HINDI

TOPIC: अपठित गद्यांश

मां ने अपने बेटे नामू से कहा, "जा, कुल्हाड़ी लेकर पलाश के पेड़ से कुछ छाल उतार ला"। "अभी लाया मां" कह कर नामू ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ निकल गया। यहां उसने पलाश के पेड़ से छाल उतारी और फिर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे विचार आने लगा, "जब मैं कुल्हाड़ी से प्रहार करता था, तो एक आवाज पेड़ से निकलती थी, कहीं यही आवाज पेड़ की कराह तो नहीं। जब मैं प्रहार करता हूंगा तो पेड़ को पीड़ा भी होती ही होगी"।

नामू ने घर आकर पलाश की छाल मां को सौंपी और घर से दूर कुल्हाड़ी लेकर जा बैठा। वहां बैठकर उसने कुल्हाड़ी से अपना पांव रगड़ना शुरू किया। रगड़ के साथ पांव में पीड़ा होती और खून बहता और नामू के मुंह से हल्की हल्की चीखे भी निकलती थी।

कुछ देर बाद वह घर लौट आया और मां से खाना मांगा। उसके चेहरे पर पीड़ा झलक रही थी मगर वह चुप था। मां ने देखा मगर कुछ समझी नहीं। एकाएक मां की दृष्टि उसकी धोती पर गई जो खून से लाल हो गई थी। उसने घबराकर पूछा, "क्या हुआ नामू?" "कुछ नहीं मां, तुम चिंता मत करो।"

मां और अधिक घबरा कर बोली, "चिंता कैसे ना करूं? बेटा तेरा इतना खून बहता देख कर मैं चिंता नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? मुझे जल्दी बता तुझे क्या हुआ है?"

नामू ने कहा, "मां तुमने पलाश की छाल मंगाई थी तो कुल्हाड़ी से छाल उतारते हुए मुझे ऐसा लगा कि पेड़ कराह रहा है और जैसे उसे पीड़ा हो रही है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी की रगड़ से मैं यह जानना चाहता था कि क्या सभी को एक ही पीड़ा होती है।" बेटे की बात सुनकर मां का दिल भर आया। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उसने नामू को गले लगाते हुए कहा, "लगता है मेरी कोख से किसी संत ने जन्म लिया है। तू पराए दुख से वह भी एक पेड़ के दुख से दुखी हो गया। अवश्य ही तू एक दिन बड़ा संत बनेगा।" आगे चलकर यही नामू नामदेव के नाम से महाराष्ट्र का प्रसिद्ध संत हुआ।

WORKSHEET

प्रश्न) गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

- 1) मां ने नामू को क्या आदेश दिया ?
- 2) घर लौटते समय नामू ने रास्ते में क्या विचार किया और क्यों ?
- 3) पेड़ की पीड़ा का अनुभव नामू ने कैसे किया ?
- 4) मां की चिंता का क्या कारण था तथा नामू ने मां को क्या बताया ?
- 5) मां ने क्या भविष्यवाणी की और वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ ?

प्रश्न) निर्देशानुसार उत्तर दीजिए :-

- 1) निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए :-
अधिक, दुख, पराया, प्रसिद्ध।
 - 2) निम्नलिखित शब्दों के दो-दो पर्यायवाची शब्द लिखिए :-
मां, जंगल, पेड़, आंख।
 - 3) निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए :-
अश्रु, पीड़ा, प्रहार।
-

